

May 19, 2022

**The Secretary  
BSE Limited**

Corporate Relationship Department  
1<sup>st</sup> Floor, New Trading Ring,  
Rotunda Building  
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,  
Mumbai - 400 001

**The Secretary**

**National Stock Exchange of India Ltd**

Exchange Plaza  
5<sup>th</sup> Floor, Plot no C/1, G Block  
Bandra Kurla Complex  
Bandra (East)  
Mumbai - 400 051

**Subject: Newspaper advertisement for Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority**

Dear Sir/Ma'am,

We wish to inform you that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published the "Notice for transfer of Equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority" in the following newspapers:

- a) Business Standard (Hindi)
- b) Business Standard (English)

Copy of newspaper clippings are attached.

Kindly take this on record and acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours truly,

For **Coforge Limited**  
**(Erstwhile NIIT Technologies Limited)**

**Barkh Sharma**  
**Company Secretary**  
**ACS 24060**

**Coforge Limited**

(Erstwhile known as NIIT Technologies Limited)

Special Economic Zone, Plot No. TZ-2 & 2A, Sector - Tech Zone, Greater Noida (UP) - 201308, India.  
Tel.: +91 120 4592 300, Fax: +91 120 4592 301 www.coforge.com  
Registered Office: 8, Balaji Estate, Third Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi - 110 019, India.  
Tel.: +91 11 41029 297, Fax: +91 11 2641 4900  
CIN: L72100DL1992PLC048753



# Farm-driven demand has firm grip on Balkrishna

Raw material, freight costs will, however, weigh on its near-term margins

RAM PRASAD SAHU  
Mumbai, 18 May

The stock of the country's largest tyre company by market capitalisation, Balkrishna Industries, rose 14 per cent in the past few trading sessions. The gains came on the back of a strong January-March quarter (fourth quarter, or Q4) performance, healthy volume outlook, and expectations of market-share gains.

The near-term trigger for the off-highway tyre maker has been its Q4 performance. Aided by strong growth across segments, Balkrishna posted better-than-expected revenue growth performance in Q4 of 2021-22 (FY22).

The company, which makes tyres for agricultural, industrial, and off-the-road (OTR) applications, posted 39 per cent year-on-year sales growth, with gains coming from both volumes (10 per cent) and price hikes.


While the agricultural segment, which accounts for two-thirds of sales, has been a key growth driver, given the robust crop prices, the mining and construction segments, too, witnessed impressive growth. The management has highlighted that demand growth remains strong across segments and geographies. Brokerages, too, expect robust growth in the future.

Siddhartha Bera and Kapil Singh of Nomura Research expect healthy double-digit growth for Balkrishna to sustain in the near term, taking into consideration sharp jump in crop prices aiding farmer incomes and increases in metal commodity prices driving construction and mining activity.

What should help assist growth across segments is capacity expansion. While volumes

## WHERE RUBBER MEETS THE ROAD

### STRONG GROWTH TRENDS




Source: Motilal Oswal Research

for the year (FY22) were up 27 per cent to 290,000 tonnes, the recent capacity addition of 55,000 tonnes at the Bhuj plant could take its volumes to 330,000 tonnes in 2022-23 (FY3) at maximum capacity, according to Anand Rathi Research. The company continues to operate at peak capacity. It deferred capital expenditure at its Waluj factory to meet current demand requirements. The Street will also keep an eye on margins. While gross margins contracted 410 basis points (bps) to 54.7 per cent due to raw material inflation, they were better than what the Street was working with, taking into account the gains from higher realisations.

Operating profit margin (OPM) was down over 800 bps (40 bps sequentially) to 22.9 per cent on higher rubber, freight, and energy costs.

### THROUGH THE WRINGER



The company indicated that higher freight costs were responsible for a 400-bp impact on margins on a sequential basis. The company had raised prices at the start of March by 3 per cent and intends to raise them further by 3-4 per cent next month to counter cost inflation.

Although the company expects long-term OPM to be in the 28-30 per cent range, for next year, margins will be around 24-25 per cent.

While there will be margin pressure for the company, analysts, led by Jinesh Gandhi, of Motilal Oswal Research expect Balkrishna's outperformance in the specialty tyre industry to continue, driven by expansion of its product portfolio and ramp-up in the OTR segment, with scope to strengthen its competitive positioning.

# Homemakers, take cover: Must have a ₹20-50-lakh term policy

Declaring any form of income, like rent, homemaker earns can help her get a higher sum assured

BINDISHA SARANG

In India, the breadwinner of the family usually purchases a life insurance cover for himself. Most homemakers remain uninsured. However, things are beginning to change now.

A recent online survey of 5,000 respondents conducted by PolicyBazaar in April found that around 15 per cent of the active policies are independent term plans meant for homemakers.

Independent term plans targeting homemakers have become available only recently.

### Few homemakers covered

Households generally ignore the need to buy a term cover for the homemaker because they underestimate her contribution.

Saija Praveen Chowdhary, business head-term life insurance, PolicyBazaar, says, "In India, a person's economic contribution is measured solely in terms of financial earnings. Since homemakers don't earn an income, their contribution is vastly underestimated."

But a homemaker's contribution does have economic value. She manages the household and takes care of domestic finances. She is the primary childcare provider. In many households, she also looks after the elderly, and even cooks for the family.

As V Viswanand, deputy managing director, Max Life Insurance, says, "A woman's contribution as homemaker is essential and irreplaceable."

Experts say if one were to ascribe an economic value to all the contributions a homemaker makes, it would easily amount to

## COST OF COVER FOR A HOMEMAKER

Premium rates are for a 40-year-old woman

Insurer	Plan	Sum insured (₹ lakh)	Premium (₹)	Cover till age (years)
Max Life	Smart Secure Plus*	50	936	85
Tata AIA	Sampoorna Raksha Supreme POS*	50	1,344	65
IICI Prudential	iProtect Smart	50	900	99
Kotak Life	Kotak e-Term Plan	25	561	75
PNB MetLife	Saral Jeevan Bima	25	711	70
India First	Life	10	295	70

\*Husband's existing life cover not required

Source: PolicyBazaar

₹45,000-50,000 per month in the case of an average middle-class family in urban India.

### Add-on to spouse's cover

Currently, most plans offering term cover to homemakers do so typically as an add-on to the earning spouse's cover.

Kapil Mehta, co-founder, SecureNow Insurance Broker, says, "Life insurance options for homemakers are restricted. If both the earning spouse and the homemaker buy life insurance together, then the latter's sum assured is restricted to 50 per cent of the former's sum assured."

Due to this 50 per cent limit, the spouse must buy a life cover of at least ₹1 crore to allow the homemaker to buy a

decent cover. Life insurers say they limit the sum assured offered to homemakers to prevent the risk of moral hazard. In the past, many cases have occurred where the husband purchased a high-value cover for the wife, only to murder her later for the insurance money.

### Limited standalone covers available

Only a few insurers offer an independent, standalone term plan for homemakers. One is Tata AIA Life and the other is Max Life Insurance. The latter offers a cover to homemakers aged between 18 and 50 years. If the homemaker is a graduate, and the household

income is at least ₹5 lakh, then the homemaker can buy a term cover of ₹50 lakh.

"This policy has completely removed the homemaker's dependency on the spouse's income," says Chowdhary.

### What should homemakers do

Homemakers should first try to get a term cover.

Dilshad Billimoria, board member, Association of Registered Investment Advisers, says, "A plain vanilla term plan is the best form of insurance."

If a homemaker is unable to get it, she may purchase a low-premium endowment policy. Most other forms of insurance-cum-investment products should be avoided as they will not be able to offer sufficient cover at a cost-effective premium.

The homemaker should purchase at least a ₹20-50 lakh insurance cover. Experts say that if the children are young, the spouse will need at least ₹4-6 lakh a year for their care for the next 10 years, until they become independent. "When buying a term cover for the homemaker, ensure that the coverage lasts for as long as she has the capacity to work," says Billimoria.

While purchasing a policy, a homemaker should make the right declarations.

"Declare clearly that you are a homemaker. Also, if you have any financial income, such as rental income, declare it. This could help enhance the sum assured offered to you," adds Mehta.

## A DAY AT THE BOURSES

### DAY 1: Ethos' IPO subscribed 27%

Luxury watch retailer Ethos' initial public offering (IPO) was subscribed 27 per cent on Wednesday — the first day of the issue. The retail investor portion of the issue was subscribed 53 per cent. Ethos' IPO comprises fresh fund-raise of ₹375 crore and an offer for sale of ₹97.3 crore. The price band for the issue is ₹836-878 per share. At the top end, the company is valued ₹2,050 crore. Based annualised earnings per share of ₹9.13 for 2021-22, the price-to-earnings multiple works out to 96.2x.

### STATUS CHECK

Subscription (x)	Ethos	Paradeep Phosphates
Qualified institutional buyers	0.0	0.0
Non-institutional Investors	0.0	0.2
Retail individual investors	0.5	1.0
Shareholder reservation	0.0	0.0
<b>Total</b>	<b>0.3</b>	<b>0.5</b>

BS REPORTER

### DAY 2: Paradeep listing receives 51% subscription

Paradeep Phosphates' initial public offering (IPO) was subscribed 51 per cent on Wednesday — a day before its close. The retail investor portion of the issue was subscribed 91 per cent, high networth individual portion was covered 20 per cent, and institutional investor category received negligible bids. Paradeep Phosphates is India's second-largest private sector manufacturer of phosphatic fertilisers. The company's IPO comprises ₹1,004 crore fresh fund-raise and offer for sale of ₹498 crore.

BS REPORTER

**GUJARAT STATE ELECTRICITY CORPORATION LTD.**  
REGD. & ADMIN. OFFICE, VIDYUT BHAVAN, RACE COURSE, VADODARA - 390007  
Phone Nos. : (0265)-6612133/6612132/6612131. Fax : (0265)-2341588  
URL : www.gsecl.com; www.gsecl.in CIN : U40100GJ1993SGC019988

**Tender No. GSECL/PP/RE & BD/45 MW Solar PV/Dtd. 16.05.2022**  
**Tender ID: 524874**

The Chief Engineer (P&P), Gujarat State Electricity Corporation Limited, invites Tender for "Design, Engineering, Supply, Procurement, Installation, Commissioning, Operation and Maintenance of 45 MW solar Photovoltaic grid connected power plant at Badeli of Bhavnagar District around substation of GETCO in the State of Gujarat."

Tender Documents & Specifications may be downloaded from Web site <http://gsecl.nprocure.com> (For view, download and on line submission) and GSECL web site [www.gsecl.in](http://www.gsecl.in) (For view & download only).

Note: Be remain updated with above Web Sites for any notices/amendments/clarifications etc. till opening of Tender.

**Sd/- Chief Engineer (P&P)**  
**Gujarat State Electricity Corporation Limited**

**IFB AGRO INDUSTRIES LIMITED**  
CIN: L01409WB1982PLC034590  
Regd. Office: Plot No. IND 5, Sector-1, East Kolkata Township, Kolkata-700107  
Ph: 033-3849675. Fax: 24421003  
Email: compliance@ifbagro.com; ifbglobal.com  
Website: www.ifbagro.in

**NOTICE**

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of IFB Agro Industries Limited will be held on **Monday, the 30th day of May, 2022** to consider and take on record the Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the quarter and Financial Year ended 31st March, 2022 besides other matters.

The information contained in this notice is also available on the Company's website [www.ifbagro.in](http://www.ifbagro.in) and also on the website of Stock Exchanges viz. BSE Ltd - [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Ltd - [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)

For IFB Agro Industries Limited  
**Ritesh Agarwal**  
Company Secretary  
Place : Kolkata Date: 18.5.2022

**Gujarat State Petronet Limited**  
Corporate Identity Number : L40200GJ1988SGC035188

Regd Office: GSPC Bhavan, Sector-11, Gandhinagar-382010, Gujarat, India.  
Tel.: +91-79-23268500/700 Fax: +91-79-23238506 Website: www.gspcgroup.com

**NOTICE INVITING TENDER**

Gujarat State Petronet Limited (G SPL) is laying a gas grid, to facilitate gas transmission from supply points to demand centers. G SPL invites bids from reputed pipeline construction companies for following requirements vide "Single Stage, Three-Part" bidding process:

**Tender-1: Pipeline and Associated Works for Chhara LNG Connectivity Project (36" x 90 Km approx.) on EPC basis**

Interested bidders can view/download details, viz. Bidding Schedule, Bid Qualification Criteria (BQC) and Tender Documents from <https://gspil.nprocure.com>. Details can also be viewed on G SPL Website (<http://www.gspil.com>). Bidders can submit their bid through <https://gspil.nprocure.com> and all future announcement related to this tender shall be published on <https://gspil.nprocure.com> only.

Date of tender upload on both websites: **19-05-2022 @ 15.00 hrs. IST**

G SPL reserves the right to cancel and/or alter bidding process at any stage without assigning any reason. G SPL also reserves the right to reject any or all of the bids received at its discretion, without assigning any reasons whatsoever.

**CELEBRITY FASHIONS LIMITED**  
Regd & Corp. Office: SDF-IV & C2, 3rd Main Road, MEPZ-SEZ, Tambaram, Chennai - 600 045.  
Email: investorservices@celebritygroup.com Website: www.celebritygroup.com  
Phone No: 044 - 4343 2200/2300; Fax No: 044 - 4343 2128 CIN: L17121TN1988PLC015655

**Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31<sup>st</sup> March 2022**  
(Rs. In Crores)

Sl. No.	Particulars	Audited			
		Quarter Ended		Year Ended	
		31-Mar-22	31-Mar-21	31-Mar-22	31-Mar-21
1	Total income from operations	92.65	89.78	327.69	232.77
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	3.60	1.69	8.78	(5.57)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	3.6	1.69	8.78	(5.57)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	3.6	1.69	8.78	(5.57)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1.14	1.23	6.32	(6.03)
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- each)	51.67	47.77	51.67	47.77
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			(36.69)	(44.13)
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
	- Basic (Rs.)	0.22	0.26	1.22	(1.26)
	- Diluted (Rs.)	0.22	0.26	1.22	(1.26)

Notes:  
a) The above is an extract of the detailed format of Standalone Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges viz. [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and also on the Company's website [www.celebritygroup.com](http://www.celebritygroup.com).  
b) The above audited results for the quarter and year ended 31<sup>st</sup> March 2022 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 18<sup>th</sup> May 2022.  
c) The above financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) - 34 "Interim Financial Reporting" as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.  
d) The Company operates exclusively in the segment of garments. This in the context of Indian Accounting Standard 108 (Ind AS 108) "Operating Segments" issued by MCA.

For and on behalf of Board  
**Celebrity Fashions Limited**  
Sd/-  
**Viduyth Rajagopal**  
Managing Director  
DIN: 07578471

Date : 18<sup>th</sup> May, 2022  
Place : Chennai

**Coforge Limited**  
(erstwhile NIIT Technologies Limited)  
CIN: L72100DL1992PLC048753  
Regd Office: 8, Balaji Estate, Third Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi-110019, Ph: 91 (11) 41029297  
Email: investors@coforge.com, Website: <https://www.coforge.com>

**NOTICE**  
**Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education Protection Fund**

Members of the Company are hereby informed that pursuant to the provisions of the Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read along with Investor Education Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs effective from September 07, 2016 and amendments made thereunder, unpaid/unclaimed dividends are required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government after completion of seven years.

Further, equity shares of the Company, in respect of which the dividend has remain unpaid/unclaimed for seven (7) consecutive years or more are required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") Suspense Account.

The Company has already sent the individual communication to all concerned shareholders at their registered address providing them the details of their unclaimed dividend and giving them the opportunity to claim the said unclaimed dividend latest by Monday, August 15, 2022, to avoid transfer of their shares to the Demat account of the IEPF Authority.

The details of such shareholders, unclaimed dividend and shares liable for transfer to IEPF Suspense Account is available on Company's website <https://www.coforge.com/investors/statutory-disclosures/IEPF> for information & necessary action by the shareholders.

The concerned shareholders may immediately visit our website to verify the details of the unclaimed/unpaid dividend and shares liable to be transferred to IEPF and approach the Investor Service Department of the Company with necessary documents supporting their dividend claim failing receipt of communication by Monday, August 15, 2022, the Company will proceed to transfer the dividend and/or shares, by the due date specified by the Rules or such further extended date as may be applicable, for necessary compliance. In this connection please note that:

- For shares held in physical form: New share certificate(s) will be issued and transferred subsequently to the Demat account of the IEPF Authority without any further notice. Further upon issue of such new share certificate(s) the original share certificate(s) which are registered in your name will stand automatically cancelled and deemed to be bad delivery.
- For shares held in electronic mode: the shares will be directly transferred to the Demat Account of the IEPF Authority with the help of Depository Participant(s) without any further notice.

The members may further note that the details made available by the Company on its website shall be deemed as adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the Company for transfer of shares to IEPF. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF Authority pursuant to the said Rules.

The Unclaimed dividend amount and the shares transferred to IEPF, may be claimed by the concerned shareholders from the IEPF Authority by following the procedure prescribed under the aforementioned IEPF Rules, available on their website <https://www.iepf.gov.in>

For any queries on the above matter, the members are requested to contact the Investors Service Department of the Company at 8, Balaji Estate, Third Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi - 110019, Tel no.: 011-41029297; Email: [investors@coforge.com](mailto:investors@coforge.com)

For and on behalf of  
**Coforge Limited**  
(erstwhile NIIT Technologies Limited)  
Sd/-  
**Barkha Sharma**  
Company Secretary

Dated : May 18, 2022  
Place : Noida

**Sundram Fasteners Limited**  
CIN: L35999TN1962PLC004943  
Registered office: 98-A, VII Floor, Dr Radhakrishnan Salai, Mylapore, Chennai - 600 004  
Tel: +91 - 44 - 28478500 | Fax: 91 - 44 - 28478510  
Email: investorshelpdesk@sfl.co.in | Website: [www.sundram.com](http://www.sundram.com)

**NOTICE OF TWELFTH POSTAL BALLOT**

Pursuant to Section 110 read with Section 108 of the Companies Act, 2013, Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, approval of the members of the Company is being sought by Postal Ballot by way of voting through electronic means (remote e-voting) offered by National Securities Depository Limited (NSDL) for the items as set out in the Notice of Postal Ballot dated May 11, 2022.

In view of the impact of Covid-19 Pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 read with 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021 and 3/2022 dated May 5, 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars"), has permitted companies to conduct postal ballot by sending e-mails to all its shareholders who have registered their email addresses with the Company or depository / depository participants. Consequently, the notice of 12<sup>th</sup> Postal Ballot has been sent to the shareholders who have registered their e-mail addresses and is not being sent to the shareholders who have not registered their e-mail addresses. Further, the communication of assent / dissent of the shareholders will only take place through the remote e-voting system. This Postal Ballot is accordingly being initiated in compliance with the MCA Circulars.

Members may note the following information:-

The cut-off date for determining the eligibility to vote through electronic means (remote e-voting).	Wednesday, May 11, 2022
Date of sending e-mail to all the shareholders who have registered their e-mail addresses with depositories or with the Company.	Wednesday, May 18, 2022
Date of commencement of voting (remote e-voting)	Wednesday, May 18, 2022, 9:00 am (Indian Standard Time)
Date of closure of voting (remote e-voting)	Thursday, June 16, 2022, 5:00 pm (Indian Standard Time)

The Board of Directors of the Company has appointed Sri K Sriram, Partner, M/s. S Krishnamurthy & Co., Company Secretaries, as the Scrutiniser for conducting the postal ballot process (remote e-voting) in a fair and transparent manner. The Postal Ballot Notice is available on the website of the Company at <http://sundram.com/investors> and the same will be available in the website of NSDL at <http://www.evoting.nsdl.com> till Thursday, June 16, 2022.

In case of any query / grievance in respect of voting by remote e-voting, the members may contact the Registrar and Share Transfer Agent, Sri S Sriram, Deputy General Manager, Integrated Registry Management Services Private Limited, Kences Towers, 2nd Floor, No.1, Ramakrishna Street, North Usman Road, T.Nagar, Chennai - 600 017, Telephone: 91-44-28140801-803, E-mail: [srirams@integratedindia.in](mailto:srirams@integratedindia.in)

Any query / grievance in relation to voting by electronic means, the members may also refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) (or) call on toll free no. 1800-1020-990 and 1800-22-44-30 or send a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in)

The results of the postal ballot (remote e-voting) will be declared at its registered office and will be displayed on the notice board of the Company on or before Monday, June 20, 2022 (i.e. two working days from the date of conclusion of the postal ballot process). The results shall be communicated to the stock exchanges and shall also be posted on the Company's website - <http://sundram.com/investors.php>.

Chennai  
May 19, 2022

For SUNDARAM FASTENERS LIMITED  
**R Dilip Kumar**  
Executive Vice President – Finance & Company Secretary

**INDIAN TERRAIN FASHIONS LIMITED**  
Regd. Office: No. 208, Velachery Tambaram Road, Narayanapuram, Pallikarai, Chennai – 600 100.  
E-mail: [response.itfl@indianterrain.com](mailto:response.itfl@indianterrain.com); Website: [www.indianterrain.com](http://www.indianterrain.com)  
Tel: +91-44-4227 9100, CIN: L18101TN2009PLC073017

**Extract of Audited Standalone Financial Results for the Quarter & year ended 31<sup>st</sup> March 2022**  
(Rs. In Crores)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended				Year Ended	
		Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
		31-Mar-22	31-Mar-21	31-Mar-22	31-Mar-21		
1	Total income from operations	108.68	91.67	336.30	213.17		
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2.76	3.69	(7.73)	(54.25)		
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2.76	3.69	(7.73)	(54.25)		
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6.46	26.80	(2.20)	(30.75)		
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	6.53	26.95	(1.95)	(30.37)		
6	Equity Share Capital (Face Value of Rs.2/- each)	8.22	8.22	8.22	8.22		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	185.73	187.68		



